

Lumax Industries Limited

11160 New Registered Fice.
2nd Floor, Harbans Bhawan-II Guerrane

REGD. & CORPORATE OFFICE: 21th Floor, Harbarts Briadwart in CRIDING Briadwart in Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Street Corporate Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte Office: 21th Floor, Harbarts Briadwart in Carlotte

Phone: +91 11 28111777, 28116990 Fax: +91 11 28115779

E-mail: cao@lumaxmail.com

Phone: +91 11 49857832

Our Ref.

LIL:CS:BM:17-18

(CIN: L74899DL1981PLC012804)

_{Date}7-10-2017

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
1st Floor, Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001.

Company Code - LUMAXIND

Company Code - 517206

Sub: News paper cutting of Notice of Board Meeting to be held on 04-11-2017

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the Board Meeting Notice published in the Newspapers on 27-10-2017 viz. the Financial Express (English-All-edition) and Jansatta (Hindi-Delhi) for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

SHWETANK TIWARI COMPANY SECRETARY

.

| | rsuant to Regulation 59A of Securities | | | | | |
|------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|
| | Name of the Scheme: Parag Parikl | Long Term | Value Fund (An Oper | Ended Equi | ty Scheme) | |
| Sr. No. | Name of the Instrument | ISIN | Industry + | Quantity | Market/ Fair Value (Rs. in Lakhs) | % to NAV |
| Ser | EQUITY & EQUITY RELATED | | | | | |
| a) | Listed | | | | | |
| | Core Equity | | | | | 7.000 |
| 1 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | INE118A01012 | Finance Banks | 240482.00 | 6,724.96 | 7.82% |
| 2 | HDFC Bank Ltd Indraprastha Gas Ltd | INE040A01026 INE203G01019 | Gas | 369070.00 353400.00 | 6,664.30 5,201.69 | 7.75% 6.05% |
| 4 | Persistent Systems Ltd | INE262H01013 | Software | 644826.00 | 4,319.04 | 5.02% |
| 5 | Balkrishna Industries Ltd | INE787D01026 | Auto Ancillaries | 229215.00 | 3,909.83 | 4.55% |
| 6 | Zvdus Wellness Ltd | INE768C01010 | Consumer Non Durables | 371729.00 | 3,339.24 | 3.88% |
| 7 | Maharashtra Scooters Ltd | INE288A01013 | Auto Ancillaries | 107222.00 | 3,066.07 | 3.56% |
| 8 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | INE998I01010 | Hotels, Resorts & Other | | | |
| | | | Recreational Activities | 861421.00 | 2,936.15 | 3.41% |
| 9 | Axis Bank Ltd | INE238A01034 | Banks | 505179.00 | 2,572.12 | 2.99% |
| 10 | ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | Banks | 830467.00 | 2,297.07 | 2.67% |
| 11 | Mphasis Ltd(prev)Mphasis BFL Ltd | INE356A01018 | Software | 333711.00 | 2,064.67 | 2.40% |
| 12 | ICRA Ltd | INE725G01011 | Finance | 37835.00 | 1,510.49 | 1.76% |
| 13 14 | IPCA Laboratories Ltd Dr.Reddys Laboratories Ltd | INE571A01020 INE089A01023 | Pharmaceuticals Pharmaceuticals | 236663.00 40000.00 | 1,154.09 931.50 | 1.34% |
| 15 | Pfizer (I) Ltd | INE182A01018 | Pharmaceuticals | 33600.00 | 610.61 | 0.71% |
| 15 | Special Situation / Arbitrage | INCTOZACIOTO | Filalinaceuticals | 33000.00 | 010.01 | 0.7170 |
| 16 | Hindustan Petroleum Corpn Ltd | INE094A01015 | Petroleum Products | 850500.00 | 3,629.93 | 4.22% |
| 17 | Century Textiles Industries Ltd. | INE055A01016 | Cement | 264000.00 | 3,227.27 | 3.75% |
| 18 | Yes Bank Ltd | INE528G01027 | Banks | 374500.00 | 1,310.75 | 1.52% |
| 19 | Maruti Suzuki India Ltd | INE585B01010 | Auto | 15000.00 | 1,196.73 | 1.39% |
| 20 | MARUTI SUZUKI-260CT2017 FUT # | | Auto | -15000.00 | -1,199.51 | (1.39%) |
| 21 | YES BANK-260CT2017 FUT # | | Banks | -374500.00 | -1,314.68 | (1.53%) |
| 22 | CENTURY TEX-260CT2017 FUT # | | Cement | -264000.00 | -3,240.86 | (3.77%) |
| 23 | HIND PETRO-260CT2017 FUT # | | Petroleum Products | -850500.00 | -3,630.78 | (4.22%) |
| | Foreign Securities / ADRs / GDRs | 11000007011070 | | ******* | 0.050.00 | 10.070 |
| 24 25 | Alphabet INC United Parcel Services INC | US02079K1079 US9113121068 | Internet & Technology Logistics | 15093.00 39675.00 | 9,352.60 3,097.04 | 10.87% |
| 26 | 3M Co. | US88579Y1010 | | 17755.00 | 2,428.12 | 2.82% |
| 27 | Nestle SA-ADR * | US6410694060 | Packaged Foods | 40690.00 | 2,220.01 | 2.58% |
| 28 | Facebook INC | US30303M1027 | | 19930.00 | 2,194.63 | 2.55% |
| 29 | International Business Machines Corp | US4592001014 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 2/10/1100 | 2.00.0 |
| | Constitution of the Consti | | Other Services | 20920.00 | 1,988.67 | 2.31% |
| 30 | APPLE Inc | US0378331005 | Internet & Technology | 12550.00 | 1,255.43 | 1.46% |
| 31 | Anheuser Busch Inbev SA-ADR | US03524A1088 | Brewers | 8316.00 | 645.84 | 0.75% |
| 32 | Standard Chartered PLC | GB0004082847 | Banks | 56717.00 | 366.14 | 0.43% |
| 33 | CUR_USDINR-28NOV2017 FUT # | | Misc. | -3000000.00 | -1,971.75 | (2.29%) |
| 34 | CUR_USDINR-270CT2017 FUT # | | Misc. | -27100000.00 | -17,753.21 | (20.64%) |
| b) | Unlisted | | Total | NIL | NIL | NIL |
| | Cash & Cash Equivalent | | Iotal | | 80,214.99 | 93.26% |
| | MONEY MARKET INSTRUMENTS | | | | | |
| | Bills Rediscounting | | | | NIL | NIL |
| | Commercial Papers (CP) / Certificate Of Deposit (CD) | | | | NIL | NIL |
| | Treasury Bills | | | | NIL | NIL |
| | Collateralised Borrowing & Lending Obligation | | | | | 1000000 |
| | (Net Payable) @ | | | | 2,753.83 | 3.20% |
| | FIXED DEPOSIT | | | | | 12111000010000 |
| | HDFC Bank Ltd. (maturity not exceeding 91 days) | | | | 900.00 | 1.04% |
| | TERM DEPOSITS PALCED AS MARGIN | | | | | |
| | HDFC Bank Ltd. (maturity not exceeding 91 days) | | | | 5.00 | 0.01% |
| | Cash Margin for Derivative Transactions | | Total | | 2,142.80 5,801.63 | 2.49% 6.74% |
| | Grand Total | | lotai | | 86,016.62 | |
| | Grunu rotti | | | | 00,010.02 | 1.00.0076 |

- Total NPAs provided for and its persentage to NAV: Nil
- Total value and percentage of Illiquid Equity Shares: Nil Plan wise per unit Net Asset Value are as follows:

| Plan / Option | April 03, 2017 (Rs.) | September 29, 2017 (Rs.) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Direct Plan | 19.9799 | 22.4944 |
| Regular Plan | 19.5893 | 21.9926 |
| Face Value per unit = | | 1 27.0020 |

- No Dividend declared during the period ended September 30, 2017
- No Bonus declared during the period ended September 30, 2017

 Total outstanding exposure in derivative instruments as on September 30, 2017: Rs.(2,911,080,325.00)

 For details on derivatives positions for the period ended September 30, please refer to derivatives disclo
- Total investment in Foreign Securities / ADRs / GDRs as on September 30, 2017: Rs.2,354,847,240.03

 Portfolio Turnover Ratio (Including Equity Arbitrage): 115.69%

 Portfolio Turnover Ratio (Excluding Equity Arbitrage): 13.09%
- Repo in Corporate Debt: Nil

Derivative Position

- # Derivative Position
 + Industry Classification as recommended by AMFI
 * Traded on US OTC Markets
 @ Includes Redemption & Purchase Contracts Pay-In
- DETAILS OF INVESTMENT IN DERIVATIVE INSTRUMENTS OF PARAG PARIKH LONG TERM VALUE FUND AS ON September 30, 2017

| Sr. No. | Underlying | Long / Short | Future Price when Purchased | Current Price of the Contract | Margin maintained (Rs. In lakhs) |
|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) | Equity Future | | | | |
| 1 | CENTURY TEX-260CT2017 FUT | (2,64,000.00) | 1,235.51 | 1,227.60 | |
| 2 | HIND PETRO-260CT2017 FUT | (8,50,500.00) | 412.70 | 426.90 | 1,700,49 |
| 3 | MARUTI SUZUKI-260CT2017-FUT | (15,000.00) | 7,837.90 | 7,996.75 | 1,700.10 |
| 4 | YES BANK-260CT2017 FUT | (3,74,500) | 360.13 | 351.05 | |
| (b) | Currency Future | | | | |
| 1 | CUR_USDINR-270CT2017 FUT | (2,71,00,000.00) | 64.34 | 65.51 | 442.31 |
| 2 | CUR USDINR-28NOV2017 FUT | (30,00,000.00) | 65.48 | 65.73 | 0.000000 |

Total %age of existing assets hedged through futures: 10.89%

Note: In addition to this, 26.95% of our Portfolio is in Foreign Securities (USD) and 0.82% is in Foreign Currency (USD), 82.57% of total Foreign Portfolio (USD) is hedged through Currency Derivatives to avoid currency risk.

| Sr. No. | Total Number of contracts where futures were bought | Total Number of contracts where futures were sold | Gross Notional Value of Contracts where futures were bought (Rs.in lakhs) | Gross Notional Value of Contracts where futures were sold (Rs.in lakhs) | Net Profit/(Loss) value on all Contracts combined (Rs.in lakhs) |
|------------|---|---|--|--|--|
| 1 | 1,23,384 | 1,23,384 | 1,18,639.82 | 1,18,482.92 | (156.90) |

- B. Other than Hedging Position through Future as on September 30, 2017: Nil
- C. Hedging Position through Put Options as on September 30, 2017: Nil
- D. Other than Hedging Position through Options as on September 30, 2017: Nil
- E. Hedging Positions through swaps as on September 30, 2017: Nil

Statutory Information: PPFAS Mutual Fund has been set up as a Trust and Settlor/ Sponsor is Parag Parikh Financial Advisory Services Private Limited. Trustees: PPFAS Trustee Company Private Limited. Investment Manager: PPFAS Asset Management Private Limited.



PPFAS MUTUAL FUND

NOTICE

Notice is hereby given to all investors / unit-holders of PPFAS Mutual Fund that in accordance with Regulation 59 of the Securities and Exchange Boar of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Securities and Exchange Board of India circular no. CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012, the Half Yearly Un-audited Financial Results of the scheme(s) of PPFAS Mutual Fund for half year ended on September 30, 2017 has been host on the website of PPFAS Mutual Fund, www.amc.ppfas.com

Investors/Unit-holders of PPFAS Mutual Fund are requested to take a note of the same

Any queries/ clarifications in this regard may be addressed to:
PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)
CIN No: - U65100MH2011PTC220623

81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramanth Goenka Marg 230, Nariman Point, Mumbai- 400021.

Tel.: 91 22 6140 6555 | Fax: 91 22 6140 6590 | E-mail: ppfasmt@ppfas.com | Website: www.amc.ppfas.com | For PPFAS Asset Management Private Limited

he 8" November 2017 *inter alia*, to approve Unaudited I Company forthe 2" Quarter ended 30" September 2017.

Place :New Delhi Dated :26" October 2017

For JK Lakshmi Cement Ltd Sr.VP & Company Secretary

of offers for supply of Instruments is extended up to 15/11/2017 (17 Hrs.) DIRECTOR GENERAL

MIRAE ASSET

NOTICE NO. AD/25/2017

UNAUDITED HALF-YEARLY FINANCIAL RESULTS FOR THE SCHEMES OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2017.

In line with amendments to Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 vide urities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 fication dated September 26, 2012, the Unaudited Half-Yearly Financial Results for the half-year period del September 30, 2017 (01.04.2017 to 30.09.2017) has been hosted on the website of the company www.miraeassetmf.co.in

The Statement of Scheme Portfolio as on September 30, 2017 is being published in the ne line with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

For and on behalf of the Board of Directors of MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (INDIA) PVT. LTD. (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

AUTHORISED SIGNATORY

MRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.).

Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.

28 1800 2090 777 (Toll free), © customercare@miraeasset.com (S) www.miraeassetmf.co.in

CIN of AIMC - U65993MH2006FTC165663

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



PLACE: MUMBAI DATE: October 26, 2017

ESCORTS MUTUAL FUND

DIVIDEND NOTICE

Notice is hereby given that the Trustees of Escorts Mutual Fund, M/s Escorts Investment Trust Ltd., have, in their meeting held on 26.10.2017 declared the following dividends:

| Scheme | Rate of Dividend (Rs.)/ unit* | Record Date | NAV as on 25.09.2017 | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| Escorts Short Term Debt Fund | 0.100 | 01.11.2017 | Dividend Option - 14.6581 Growth Option - 26.2927 | | |
| Escorts Income Bond | 0.090 | 01.11.2017 | Dividend Option - 41.1425 Growth Option - 51.2655 | | |
| Escorts Income Plan | 0.080 | 01.11.2017 | Dividend Option – 10.9882 Growth Option – 56.0390 Bonus Option – 29.4744 | | |

* The above dividend is subject to availability and adequacy of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date

The Face value of Units is Rs. 10/- each. Pursuant to the payment of dividends the NAV would fall to the extent of payout. For ESCORTS MUTUAL FUND,

(Ashok Aggarwal) Chief Executive Officer

Place : New Delhi

Escorts Asset Management Ltd.

Regd.off: Premises no: 2/90, Block -P, Connaught Circus, New Delhi - 110001. Tel: (011) 43587415, 43587420, 43587423, Fax: (91) 11 43587432 Website: www.escortsmutual.com | E-mail: help@escortsmutual.com

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY



ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND

This Addendum sets out the changes in the Statement of Additional Information (SAI) of PPFAS Mutual Fu

Change in 'Section II- Debt & Debt Related Instruments' to the Investment Valuation Policy ('the Policy')

The Unit-holders of PPFAS Mutual Fund should take a note that the Board of Directors of PPFAS Trustee Company Private Limited (Trustee to PPFAS Mutual Fund) and PPFAS Asset Management Private Limited, have approved the changes to Section-II "Debt & Debt Related Instruments" of Statement of Additional Information (i.e. Valuation policy) of PPFAS Mutual Fund.

| Security type | Current valuation Policy | w.e.f 27th October, 2017 |
|--|--------------------------|--|
| Government securities (Including Central government securities, State Development Loans, Treasury Bills and Cash Management Bills) with residual maturity less than or equal to 60 days. AND Debt Securities/ Instruments with Residual maturity less than or equal to 60 days (Commercial Paper/ Certificate of Deposit / Bonds/ Zero Coupon Bonds //Bills Rediscounting / Floating rate securities / PTC | | If at the time of initial purchase, the residual maturity is more than 60 days and the security comes into the less than 61 days bucket then the price as on 61st day would be used for amortisation from 60th day and the amortised vield as on 60th day would be used for comparing with reference yield as of 60th day and the spread would be fixed based on the difference between amortised yield and reference. |

Additional Points:

The prices received from CRISIL and ICRA shall be ignored during the notice period of a security which has either a Put or Call option. The notice period will begin from the date of exercise of the option (notice date) till the put or call date and the price will be amortised from the exercise date till the date of put or call.

In case the price of the securities is not provided by any one of the AMFI approved agency, then in such security will be valued at weighted average price/yield of the trades of that security on that day.

In abnormal situations, market disruptions etc. where current market information may not be obtainable and in case CRISIL and ICRA are unable to provide a security level price for any security on particular day(s), the fund manager(s) will, with the prior approval of Valuation Committee, value the securities appropriately to ensure true and fair valuation.

In case price is not provided by designated agencies, on the date of allotment of security, then:

- In case of discounted securities, valuation shall be done at price derived by adding one-day amortisation to the allotment price;
- b. In case of coupon bearing securities, valuation shall be done at allotment price

Beyond 3 business days from the date of allotment of the security, the valuation price would be determined by the Valuation Committee using principle of fair valuation. Necessary documentation shall be maintained in this regard, including method adopted along with the detailed computation of the fair price.

Brokerage shall be added to the Deal price to compute amortisation. All other contents of the Valuation Policy remain unchanged.

This addendum is dated October 27, 2017

Name of Mutual Fund: PPFAS Mutual Fund

For more information please contact:

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager for PPFAS Mutual Fund)
CIN No : - U65100MH2011PTC220623

Tender Notice No. 4-2017 file case against

Haryana govt's 'diluted' RERA

New Delhi, October 26

AFTER NEARLY THREE months of the implementation of the Real Estate (Regulation and De-velopment) Act in Haryana, a group of homebuyers of Gurgaon is likely to file a petition in gaon is likely to the a petition in the Punjab and Haryana high court soon to challenge it. "We will file the petition most likely in two weeks...Our aim is to ensure that the Haryana govern-

ment's RERA rules are on the lines of those laid down by the central government. But they have diluted the to favour builders," Gaurav Prakash, one of the homebuyers said. The state government has

been facing severe criticisms from homebuyers for 'diluting the central law by changing the definition of ongoing projects' leaving most residential projects outside the purview of the act. The state has allowed a

purview of RERA even if he had applied for a licence, or received a part completion certificate, be-fore the act is notified. This means builders who do not complete projects and leave home plete projects and leave nome-buyers in the lurch, cannot be penalised as per RERA guide-lines. By exempting projects for which an application for com-pletion oroccupation certificate pletion or occupation certificate (CC/OC)has been made on or be-fore the rules are notified, Haryana hastakena lenient atti-tude towards builders. Last month, Gurgaon Citi-

zens Council, a city-based organisation had filled petition in the isation had fuled petition in thigh court challenging the RERA rules. The high court will hear the matter on November 23.
"Haryana has completely diluted the rules. It says anyone who has received part CC or OC when merely grown analysis for the second part of the court of the court of the second part of the second part of the part of the second part of the part o

or has merely even applied for part CC or OC will be out of the ambit of the act. Then what is the purpose of the act," president of the council R S Rathee said. Earlier this month, pan-India homebuyers' pressure group Fight For RERA formed a non-

Fight for KERA formed a non-profit company called Forum for People's Collective Efforts (FPCE) which would represent the buy-ers in all the cases pertaining to the Real Estate (Regulation and Development) Actin the Bombay Over the last few months, many builders have challenged the provisions of RERA in differ-

ent courts across the country. The Supreme Court has directed Bombay high court to hear and dispose the RERA case within two months. the RERAcasewithin two months.
The Bombay high court has ordered a day to day hearing from
October 30, Abhay Upadhyay, national convenorof Fight For RERA
and president of FPCE said.

LUMAX

Lumax Industries Ltd.

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 or SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors or

ended September 30, 2017. The financial results will be made available on the website of the Company at www.lmax.industries.com as well as on the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com

For Lumax Industries Limited Shwetank Tiwari ace: New Delhi ite: 26-10-2017 Company Secr

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or

Registered Office :- 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg,

सूचना एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 04 नवम्बर, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त दूसरी तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट www.lumaxindustries.com के साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ल्युमॅक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए श्वेतांक तिवारी स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव तिथि : 26-10-2017

सार्वजनिक सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के समक्ष चतुर्थ तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस. नई दिल्ली-110049

मैसर्स गफ्फौ प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन : यु45200डीएल2007पीटीसी157871 पंजीकृत कार्यालय 306-308, रक्वायर वन, सी-2, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर साकेत, नई दिल्ली-110017 के विषय में।

एतदद्वारा समस्त जन साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी एतदद्वारा श्री विनय कुमार वासुदेव (डीआईएन : 02353906) जो दिनांक 10 मई, 2017 को कम्पनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे चुके हैं तथा श्री अमितेश मिश्रा (डीआईएन : 06549028) एवं श्री सतीश कुमार गोयल (डीआईएन : 06520570) जो कम्पनी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, के नाम के अद्यतनीकरण हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के 🛮 इस विषय पर किसी भी पूछताछ के लिए आप ई—मेल: investordesk@dhampur.com पर मेल भेज सकते ई समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर रही है। कोई भी व्यक्ति. जिसका हित कम्पनी

निदेशकत्व में परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है अपनी आपत्तियां, विरोध के आधार के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित करते हुए, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चतुर्थ तल, आईएफसीआई टावर 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110049 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा सुपूर्व करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है। कृते एवं हिते

मैसर्स गफ्फौ प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली विनय कुमार वासुदेव तिथि : 26-10-2017

फिजियो एक्टिव प्राईवेट लिमिटेड CIN: U85320DL2017PTC321663 पंजी. कार्यालयः ए-७, पुष्पांजलि फार्म, बिजवासन, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली,

ईमेल आईडी: physio.active123@gmail.com किंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली.

फिजियो एक्टिव प्राईवेट लिमिटेड (CIN U85320DL2017PTC321663) पंजीकृत कार्यालय ए-7, पुष्पांजलि फार्म, बिजवासन, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110061 में है, के

2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ए-7, पुष्पांजलि फार्म, बिजवासन, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110061 से ''हरियाणा राज्य के गुड़गँव'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने 2017 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, व निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर या ऊपर वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणो का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से

फिजियो एक्टिव प्राईवेट लिमिटेड (अनिल कुमार गुप्ता) तिथि: 24.10.2017 DIN NO. 00006422 स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं के लिए आवेदक

निविदा सूचना

वर्ष 2018 के लिए डायरी एवं कैलेण्डर की छपाई और आपूर्ति के लिए निविदा सूचना

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, वर्ष 2018 के लिए डायरी और कैलेण्डरों की छपाई के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त सभी योग्य प्रिंटरों से लागत की मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com के टेंडर खंड में उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ भरे गये पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 10 नवम्बर, 2017, अपराह्न 3.00 बजे तक जन संपर्क विभाग, 14वां तल, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बस् सरणी, कोलकाता-700001 के निविदा बॉक्स में अवश्य डाल दें। तकनीकि बोली उसी तारीख को अपराह 04.00 बजे और मूल्य बोली दिनांक 13 नवम्बर 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोली जाएगी। सहायक महाप्रबंधक, जन संपर्क विभाग दिनांक: 27.10.2017

युनाइटेड बेंक ऑफ़ इंडिया

United Bank of India

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

dhampur 241, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-III, नई दिल्ली- 110020 पंजी. कार्यालयः धामपुर, ठिस्ट्रिक्ट बिजनीर, -246761, यू.पी CIN: L15249UP1933PLC000511, फोन: 91-11-30659400, फैक्स: 91-11-26935697 ई-मेलः investordesk@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के

Website: www.unitedbankofindia.com

सभी सदस्यों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना (निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) संदिग्ध खाते में कंपनी के इक्विटी शेवरों का स्थानांतरण) ाह सचना एतदद्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसुचित 5 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक

शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2017 और 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा उस पर अनुवर्ती संशोधन के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए कंपनी द्वारा घोषित अंतिम लामांश, जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, उसे देय तिथि को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है। इन वर्णित लागांश खातों के संगत शेयर नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 31 अक्टूबर, 2017 तक आईईपीएफ को अंतरित कर दिये जाएंगे।

नयमों में निर्धारित कई आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को कंपनी में

दर्ज उनके नवीनतम पते पर व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजें हैं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किए जाने हेतु योग्य शेयरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट http://www.dhampur.com पर भी अपलोड किया है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 28 अक्टूबर, 2017 तक या ऐसी कोई बढ़ाई गई अवधि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी निवमों में विनिर्देशित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियत तिथि तक निवमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के ढिमेट खाते में अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, जो निम्नानुसार है

 भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में : दुप्तीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करके और उसके बाद इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र को डिमेट प्रारूप में बदलने की कॉर्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से डिपॉजिटरी को सुचित कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों का अंतरण। ढिमेट प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में : कॉपॉरेट प्रक्रिया के माध्यम से ढिपॉजिटरी

को सूचित करते हुए शेयरधारकों के खाते से आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों का अंतरण। कपया नोट करें कि ऐसे शेयरों पर भविष्य के सभी लाग, लाभांश भी आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाएंगे। संबंधित शेयरधारक वह नोट करें कि ऐसे अंतरण के बाद वह नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास लाभांश सहित कथित शेयर(रों) के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं।

या कंपनी के रजिस्ट्रार एंढ ट्रांसफर एजेंट, श्री जे.के. सिंगला, वरि. प्रबंधक, अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड यूनिटः घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, अलंकित हाईट्स, १ई/१३, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-११००५५, कोन नं. 011-42541234, ई-मेलः rta@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं। कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली हस्ता/-दिनांक: 17.10.2017 कंपनी सचिव

नीलामी बिक्री सूचना

तिथि 23.10.2017 के अनुसार

वित्तीय परिसम्पत्ति तथा सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का लागू के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण अन्तर्गत बैंक हेतु शुल्क अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतदद्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋणप्राप्तकर्ता एवं विशेष में प्रत्याभृतिदाताओं हेतु सूचना प्रदान की जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. दिल्ली हेतु रेहन प्रस्तुत सम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति के सरक्षाकरण तथा पनः निर्माण तथा सरक्षा अधिनियम, 2002 का लागू के प्रावधान अन्तर्गत तिथि 03.06.2015 के अन्तर्गत अधिकार ग्रहण सम्पत्ति निम्नलिखित देयकों की वसूली हेतु निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी तथा आगे ब्याज, शुल्क तथा लागत इत्यादि जैसा कि निम्नलिखित विवरण अनुसार है तथा सम्पत्ति जैसा है तथा जहाँ है तथा बिना किसी आश्रय आधार में बिक्री की जाएगी यह सूचना अंकित तिथि मे नीलामी-सह-बिक्री के आयोजन कार्य के विषय में उपरोक्त कथित ऋण के प्रत्याभूतिदाता तथा ऋण प्राप्तकर्ता हेतू एक सूचना भी है यदि उनकी शेष बकाया देयक राशियों पूर्ण रूप में पूनः नहीं

ऋणप्राप्तकर्ता तथा प्रत्याभ्तिदाताओं का नामः प्रदीप गुप्ता, बरखा गुप्ता रेहन प्रस्तृत तथा गिरवी कार्य सम्पत्ति का विवरणः प्रोपर्टी बेयरिंग नं. बी–283, प्रथम तल

| 1 | हरी नगर, नइ दिल्ली—110058 | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|
| | सुरक्षित मूल्य (रु.) | धरोहर राशि जमा | सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि तथा समय | नीलामी की तिथि तथा समय | | |
| ı | ₹. 28,00,000 / - | ₹. 2,80,000 / — | तिथि 03.11.2017 | तिथि 14.11.2017 | | |
| ı | (रु. अठाइस लाख | | प्रातः 11:30 बजे से | | | |
| 1 | मात्र) | मात्र) (सुरक्षित मूल्य की 10% | अपराह्न 2:00 बजे | बजे से अपराह | | |
| -1 | , | राशि | तक | 2:00 बजे तक | | |

शेष बकाया राशिः रु. 35,82,158 / – (रु. पैंतीस लाख बयासी हजार एक सौ अठावन मात्र)

प्रस्ताव कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कथित सम्पत्ति के क्रय हेत् इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से मुहरबन्द आवरण में डीसीबी बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में धरोहर राशि हेतु मांग देय प्रपत्र के साथ कार्यालय डीसीबी बैंक लि. 7 / 56, तृतीय मंजिल, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 में **तिथि 13.11.2017 में अप. 4:00 बजे अथवा पूर्व** प्रेषित कर सकते है तथा मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि 14.11.2017 में अप. 12.30 बजे खोले जाएंगे तथा धरोहर राशि बिना ब्याज राशि के बिना वापिस योग्य है यदि बोली सफलता पूर्ण नहीं है तथा इच्छुक क्रेतागण उपरोक्त अंकित तिथि तक सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है तथा जिसके हेत् वह सम्पर्क कर सकते है **श्री श्यामसुन्दर चण्डोक या श्री मयंक दत्त चौधरी** (011) 66186387 / 66186388 धरोहर राशि बिना प्रस्ताव संक्षिप्त रूप में निरस्त कर लिए जाएंगे तथा कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेत् इसका बिना कोई कारण निरूपित किए बिक्री को भंग / अगली तिथि तक स्थगित अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने हेत् अधिकार सुरक्षित है तथा यदि प्रस्ताव है क्रेता हेतू 25% राशि धरोहर राशि शीघ्रता से बिक्री मूल्य की राशि शामिल करके जमा करना होगा तथा यदि वह उक्त की जमा राशि जमा करने हेतु असफल है धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति आगे पुनः बिक्री की जाएगी तथा क्रय मूल्य की शेष राशि बिक्री की प्रमाणिकता की तिथि से 15 दिन में अथवा पूर्व भुगतान करना होगा तथा उल्लेखित अवधि के अन्दर—अन्दर भुगतान में असफल रहने के मामले में धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति पुनः बिक्री की जाएगी तथा कोई अन्य वैधानिक देयक / कर / टिकट शुल्क / पंजीकरण शुल्क / हस्तांतरण कार्य शूल्क है पृथक रूप से क्रेता द्वारा वहन करना होगा।

SARFAESI अधिनियम, 2002 अन्तर्गत बिक्री सूचना के वैधानिक 15 दिवस एतदद्वारा ऋणप्राप्तकर्ता / प्रत्याभृतिदाता हेत् एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ई—मेल नीलामी की तिथि से पूर्व सहायक तथा अधिनस्थ व्यय शामिल करके उपरोक्त अंकित अनुसार राशि का भुगतान कीजिए तथा जिसमें असफल रहने में सम्पत्ति नीलाम की जाएगी तथा शेष देयक, यदि कोई है, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल किए जाएंगे।

तिथिः 27.10.2017 अधिकत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली डीसीबी बैंक लिमिटेड

ESCORTS MUTUAL FUND DIVIDEND NOTICE

Notice is hereby given that the Trustees of Escorts Mutual Fund, M/s Escorts Investment Trust Ltd., have, in their meeting held on 26.10.2017 declared the following dividends:

| Scheme | Rate of Dividend (Rs.)/ unit* | Record Date | NAV as on 25.09.2017 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Escorts Short Term Debt Fund | 0.100 | 01.11.2017 | Dividend Option – 14.6581 Growth Option – 26.2927 |
| Escorts Income Bond | 0.090 | 01.11.2017 | Dividend Option - 41.1425 Growth Option - 51.2655 |
| Escorts Income Plan | 0.080 | 01.11.2017 | Dividend Option – 10.9882 Growth Option – 56.0390 Bonus Option – 29.4744 |

The above dividend is subject to availability and adequacy of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

The Face value of Units is Rs. 10/- each. Pursuant to the payment of dividends the NAV would fall to the extent of payout.

For **ESCORTS MUTUAL FUND**, sd/-

(Ashok Aggarwal) **Chief Executive Officer**

Place: New Delhi Date: 26.10.2017

Escorts Asset Management Ltd.

Regd.off: Premises no: 2/90, Block –P. Connaught Circus, New Delhi – 110001. Tel: (011) 43587415, 43587420, 43587423, Fax: (91) 11 43587432 Website: www.escortsmutual.com | E-mail: help@escortsmutual.com

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY

इण्डियन ओवरसीन् बैंक

मेरठ शाखा- 202-212, पुलिस स्ट्रीट, सदर , मेरठ

कब्जा सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों को प्रत्येक के नाम के सामने दशायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, 202-212, पलिस

| जो स्थित है सोती | | | से) + ब्याज |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| त्र आवासीय मकान विपन्नीट सं० ३० का | | | 59,70,828.00 (30.09.2017 |
| यक बंधक/ दृष्टि | 26.07.2017 | 24.10.2017 | स्क |
| o सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस की तारीख | कब्जा नोटिस की तारीख | बकाया राशि |
| | मम्पित का विवरण यक बंधक/ दृष्टि क आवासीय मकान | मांग नोटिस की तारीख यक बंधक/ दृष्टि ^{26.07.2017} क आवासीय मकान | र्वत प्लॉट सं० ३० का |

वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।, दिल्ली का कार्यालय चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकित : 09-10-2017 बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स राहुल इंडस्ट्रीज उक्त वसली प्रमाणपत्र में मेरे आदेश दिनांकित 09-10-2017 के अनुसार, अधोवर्णित सम्पत्ति दिनांक 06-12-2017 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी। नीलामी बिक्री वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी नीलामी की तिथि एवं समय : 06-12-2017 को अप. 3.00 बजे तथा अप. 4.00 बजे के बीच (अप. 04.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तारों के साथ, यदि अपेक्षित हैं)

| संख्या | सम्पत्ति का विवरण | सुराक्षत मूल्य | इएमडा | नालामा का ताथ एव समय |
|--------|---|---------------------|---------------------|---|
| 1. | प्लॉट नंबर 66 एवं 67, द्वितीय तल, छत के अधिकार के साथ, पाकेट नंबर 02, ब्लॉक—सी, सेक्टर—16, रोहिणी, नई दिल्ली | रू. 31 लाख मात्र | ৰূ. 3.10 লাজ দাস | 06-12-2017 को अप. 3.00 बजे तथा अप. 4.00 बजे के बीच (अप. 04.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तारों के साथ, यदि अपेक्षित हैं) |
| 7.0 | O | Y | | |

नियम आर शत

नीलामी बिक्री वेबसाइट : https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।

 ईएमडी वस्ती अधिकारी, डीआरटी—।, दिल्ली खाता आरसी सं. 290/2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से पहचान पत्र (निर्वाचन आई) कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट), जिसमें आगे संचार / पत्रव्यवहार के लिए पता होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ जमा करनी होगी, जो वसूली अधिकारी-।, डीआस्टी-।, दिल्ली के कार्यालय में **अधिकतम 04-12-2017 तक अप. 5.00 बजे से पूर्व** पहुंच जानी चाहिए तथा उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा।

र्डएमडी संन्निहित लिफाफे पर "आरसी सं. 290/2016" तथा प्रेषक का विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर इत्यादि शीर्षांकित किया जाना चाहिए।

सम्पत्ति की विक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोली देने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net अच्छी तरह पढ़ लें तथा / अथवा श्री एस.के. राणा (एजीएम) मोबाइल नंबर 9868461398 से सम्पर्क करें।

भविष्यलक्षी बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा तथा मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर),ए-801, वॉल स्टीट-2. ओरियंट क्लब के सामने. निकट गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, से युजर आईडी / पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जो उपरोक्त ई—नीलामी में बोलीदान के लिए अनिवार्य है तथा इसके सम्पर्क व्यक्ति हैं (i) श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नंबर 8980690773 तथा (ii) श्री नीतीश झा, मोबाइल नंबर 8800896847 और उनका ई—मेल पता है : kushal@auctiontiger.net

भविष्यलक्षी बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर),ए-801, वॉल स्ट्रीट-2, ओरियंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा इसके सम्पर्क व्यक्ति हैं (i) श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नंबर 8980690773 तथा (ii) श्री नीतीश झा, मोबाइल नंबर 8800896847 और उनका ई—मेल पता है : kushal@auctiontiger.net

केवल वे बोलीदाता ऑनलाइन ई—नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे जो वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड और डिमांड ड्राफट / पे आर्डर द्वारा ईएमडी का भुगतान कर चुके होने की पुष्टि के धारक हैं। इच्छक बोलीदाता जो अपनी बोलियां, जो सुरक्षित मूल्य से कम नहीं हैं, 04-12-2017 को अप. 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर चुके होंगे, 06-12-2017 को अप. 3

00 बजे तथा अप. 4.00 बजे के बीच आयोजनार्थ निर्धारित ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्म होंगे। नीलामी समाप्त होने से पहले अंतिम मिनट में कोई बोली प्राप्त होने पर नीलामी का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। बोलीदाता अपनी बोली रू. 25,000 / — (रू. पच्चीस हजार मात्र) के गुणज में बढ़ाएंगे।

 सफल / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मृल्य की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफट / पे ऑर्डर उपरोक्त धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद वसुली अधिकारी— L. डीआरटी— L. दिल्ली, खाता **आर.सी. सं. 290/2016** के पक्ष में ई—नीलामी समाप्त होने के बाद 24 घंटे के मीतर तैयार करना होगा तथा वसूली अधिकारी के कार्यालय इस प्रकार भेजना होगा कि ई-नीलामी समाप्त होने के बाद 3 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

 क्रेता को बिक्री मृत्य की शेष 75 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी—।, डीआरटी—।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 290/2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में वसूली अधिकारी— ।, डीआरटी— ।, दिल्ली के पास सम्पत्ति की ई—नीलामी की तिथि से 15वें दिन अथवा पूर्व, और 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की रिथति में 15वें दिन के बाद पहले कार्य दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी— |, दिल्ली के पक्ष में रू. 1000 / — तक 2 प्रतिशत निरोध शुल्क तथा रू. 1000 / – से ऊपर सकल राशि पर 1 प्रतिशत निरोध शुल्क के साथ जमा करनी होगी। (शेष 75 प्रतिशत राशि डाक द्वारा जमा करने की स्थिति में यह वसूली अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जानी चाहिए)।

असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी सीधे वसूली अधिकारी— ।, डीआरटी— ।, दिल्ली के कार्यालय से, ई—नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर तत्काल बाद प्राप्त कर

14. वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण

16. सीएचएफआई/सीएच बैंक को यह बिक्री उदघोषणा सीडी:ज को दस्ती, रिज. एडी डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सुपूर्द करने तथा सम्पत्ति के सुप्रकट भाग में चस्पा करने और इलाके में डोल पिटवा कर प्रचार करने तथा उसकी प्रति इस न्यायाधिकरण के सूचना पट पर लगाने का निर्देश दिया जाता है। बिक्री उदघोषणा / आदेश क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार वाले अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा के समाचार पत्रो में प्रकाशित करवानी होगी।

सीएचएफआई / सीएच बँक को समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की पृष्टि करने तथा उसकी फोटोप्रति फाइल में लगाने का निर्देश दिया जाता है।

मामला बिक्री उदघोषणा सूचना की तामील का शपथपत्र प्रस्तुत करने और भावी कार्यवाही हेतु **20—11—2017** हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

(आलोक कुमार दीक्षित) वसुली अधिकारी–।, खीआरटी–।, दिल्ली



दिनांक 25.10.2017 को जनसत्ता नई दिल्ली में अंग्रेजी में प्रकाशित मांग सूचना का हिन्दी रूपान्तरण के रूप में शुद्धि पत्र सरफेसी अधिनियम, 2002 के धारा 13 की उप धारा (2) के अन्तर्गत ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं के लिए मांग सूचना।

 प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवंतन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के नियम 13(2) के साथ नियम 3(1) के अन्तर्गत सुचना।

2. जबकि, प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक के द्वारा सरफेसी अधिनियम एवं प्रतिभृतिहित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 13(12) संपठित नियम 3 के तहत दिनांक 04.10.2017 को नियम 13(2) के अन्तर्गत ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं को एक मांग सूचना जारी की गई थी जिसमें सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर नोटिस में उल्लिखित धनराशि का भुगतान करने को कहा गया था। जिसमें से कुछ नोटिस उपरोक्त पते पर रिसीव न होने के कारण डाक विभाग द्वारा बैंक को वापस कर दी गई थी इसलिए बैंक इस मांग सूचना को अत्यधिक सावधानी के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नोटिसों को ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं के अन्तिम ज्ञात पते के परिसर में चिपका दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार उपरोक्त मांग सूचना की प्रति प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है यदि ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता इसको प्राप्त करने के इच्छुक है तो प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालय समयावधि

3. उपरोक्त के परिप्रेक्षय में ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं को एक बार पुनः यह सूचना दी जाती है कि इस मांग सूचना के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित धनराशि एवं उस पर लगने वाले ब्याज तथा अन्य खर्चों सहित इण्डियन ओवरसीज बैंक को भगतान कर दे। बैंक के बकाया धनराशि के भगतान करने के सापेक्ष निम्नलिखित सम्पत्तियां इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास प्रतिभृति हेत् सुरक्षित है।

| क्र सं. | ऋणी (नाम एवं पता) | क्रम सं. | जमानतकर्ता (नाम एवं पता) | | | |
|---------|--|----------|--|--|--|--|
| 1. | मेसर्स राधेश्याम गुप्ता इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड पताः डी- 2/7, राणा प्रताप | 2. | श्रीमती सुर्दशन गुप्ता पत्नी स्व. राधेश्याम गुप्ता (बंधककर्ता/ जमानतकर्ता) पताः (1) के-15, तृतीय तल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली- 110048 (2) डी-2/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 | | | |
| | बाग, दिल्ली-110007 पताः ए-271, एफ.एफ., डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 | 3. | श्री मुकेश गुप्ता पुत्र स्व. राधेश्याम गुप्ता (जमानतकर्ता) पताः (1) के-15, तृतीय तल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली- 110048 (2) डी-2/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 | | | |
| | | 4. | श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री मुकेश गुप्ता (जमानतकर्ता) पताः (1) के-15, तृतीय तल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली- 110048 (2) डी-2/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 | | | |
| | | 5. | श्री ऋषि गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता (जमानतकर्ता) पताः (1) के-15, तृतीय तल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली- 110048 (2) डी-2/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 | | | |
| | इण्डियन ओवरसीज बँक, डिफेंस कालोनी शाखा द्वारा दी गई ऋण सुविधाएं | | | | | |

| क्रम सं. | सुविधा का प्रकार | 161146 | ख्याज का दर (आवर इयू इट्रस्ट साहत) एवं अवशेष | कुल बकाया राशि * (रू. मे |
|-------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 1. | कैश क्रेडिट | ₹ 3,50,00,000/- | मूलदर (9.45 %) + 4.75 % + ओवर ड्यू इंट्रेस्ट (2.00%) = 16.20% मासिक अवशेष दर | ₹, 4,01,82,186/- |
| 2. | वाहन ऋण (टर्म लोन-पुष्पका) | ₹. 6,87,000/- | मूलदर (9.45 %) + 0.50 % + ओवर ड्यू इंट्रेस्ट (2.00%) = 11.95% मासिक अवशेष दर | ₹ 2,53,907/- |
| -57 | कुल योग | ₹, 3,56,87,000/- | | ₹. 4,04,36,093/- |

* बैंक को उपरोक्त तिथि से भुगतान करने की तिथि तक संविदा दर/अवशेष दर से भुगतान देय होगा। इण्डियन ओवरसीज बँक, डिफेंस कालोनी शाखा को प्रतिभूति प्रभार

| क्रम सं. | प्रतिभूति के प्रकार (हाईपोथिकेशन/मार्गेज इत्यादि) | प्रतिभूतियों का विवरण |
|-------------|--|--|
| 1. | कैश क्रेडिट लिमिट के लिए प्राथमिक प्रतिभूति (हाईपोथिकेशन) | वित्तीय वर्ष 2015-16 के आडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार स्टाक्स एवं बुक ऋण वैल्यू रू. 70,15,640/- एवं रू. 4,86,27,836/- का हाईपेथिकेशन। |
| 2. | वाहन ऋण के लिए प्राथमिक प्रतिभूति (हाईपोथिकेशन) | चार चक्का मारूति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर वीडीआई वाहन जो कि मेसर्स राधेश्याम गुप्ता इण्डिया प्रा. लि. के नाम से है, का हाईपोधिकेशन |
| 3. | संपार्श्चिक प्रतिभूति (मार्गेज) | बंधक सम्पत्ति आवासीय भूमि एवं भवन जो कि प्लाट सं 7, डी-2 राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली में स्थित है एवं श्रीमती सुर्दशन गुप्ता पत्नी स्व. राधेश्याम गुप्ता के नाम से है। प्लाट का कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज है। आवासीय सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर- 30 फिट चौडी सड़क, दिक्षण- श्री बंशीलाल की सम्पत्ति, पूरब- प्लाट सं. डी-2/8, पश्चिम- प्लाट सं. डी-2/6 |

4. यदि उपरोक्त ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक को उपरोक्त धनराशि का भूगतान करने में असफल होते हैं तो इण्डियन ओवरसीज बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिभूति सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा और इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं से प्रक्रिया शुल्क एवं खर्च वसूला जायेगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतकर्ताओं को अधिनियम नियम की धारा 13 के उप धारा 8 के प्रावधान के विषय में चेतावनी दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने प्रतिभृति सम्पत्ति को अवमुक्त करा लें। 6. सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत आपको यह भी चेतावनी दी जाती है कि बिना बैंक के पूर्व लिखित सहमित के प्रतिभूति सम्पत्ति को बिक्री, लीज या अन्य तरीके से हस्तांरण करने का प्रयास न करें अन्यथा नियम के धारा 29 के तहत आप जेल या जुर्माना के भागीदार होगे।

दिनांक : 25.10.2017 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकरी, इण्डियन ओवरसीज बैंक जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

अक्टूबर 26, 2017

Date: 25.10.2017

(पूर्व में अलस्टॉम टीएंडडी इंडिया लिमिटेड)

(CIN: L31102DL1957PLC193993)

पंजीकृत कार्यालयः ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020, फोन नः 91-11-4161 0660

वेबसाईटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि अन्य मुद्दों के साथ साथ दूसरी तिमाही एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को अर्द्धवार्षिकी के अलेखा परीक्षित वित्तिय परिणामों, लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की शर्त पर विचार एवं कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है। इसकी सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात

> जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए मनोज प्रसाद सिंह

> > कंपनी सचिव

नोएडा U P HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307 Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Phone: 011-23722596-8. Fax: 011-23312990 Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा

www.nseindia.com, www.bseindia.com तथा www.cse-india.com में भी दी गई है।

NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account w.r.t. F.Y. 2008-09.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of section 124 (6) read with rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, the equity shares of the Company, in respect to which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive year or more are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). The rules, amongst others matters, contain provision for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF

Notice is further given that in accordance with the provisions of the Rules, individual notices have been already sent to the respective shareholders at their latest available address registered with the Company, inter alia providing the details of shares to be transferred to the IEPF Demat Account. The list of such shareholders is also displayed on the website of the Company (www.hotelclarks.com).

All the underlying shares in respect of which dividends are not claimed/paid for the last seven consecutive years from the year 2008-09 by the concerned shareholder(s) have to be transferred to the demat account of IEPF Authority. Shareholder may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them following the prescribed procedure in the Rules. Shareholders may further note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF. In case the shareholders have any gueries on the subject matter, they may contact the

Company's Registrar and Transfer Agents at Skyline Financial Services Private Limited

Unit: U P Hotels Limited, D-153/A, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110020, Phone: 011-64732687, Email: admin@skylinerta.com. For U P Hotels Limited Place: New Delhi

Prakash Chandra Prusty Company Secretary

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations 2016. FOR THE ATTENTION OF CREDITORS OF

Form -A [PUBLIC - ANNOUNCEMENT]

Under Regulation 6 of the Insolvency & Bankruptcy Board of India

"M/s SANDEEP AXLES PVT. LTD. RELEVANT PARTICULARS

SANDEEP AXLES PVT. LTD DATE OF INCORPORATION OF 20-09-1989 CORPORATE DEBTOR

AUTHORITY UNDER WHICH REGISTRAR OF COMPANIES, NEW CORPORATE DEBTOR IS DELHI. INCORPORATED

CORPORATE IDENTITY NUMBER / U74899DL1989PTC037766 LIMITED LIABILITY IDENTIFICATION NUMBER OF CORPORATE DEBTOR.

ADDRESS OF THE REGISTERED WZ-406S, JANAK PARK HARI NAGAR OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF DELHI-110064, INDIA ANY) OF CORPORATE DEBTOR.

INSOLVENCY COMMENCEMENT 17-10-2017 DATE IN RESPECT OF CORPORATE

ESTIMATED DATE OF CLOSURE OF 14-04-2018 INSOLVENCY RESOLUTION **PROCESS**

NAME, ADDRESS, E-MAIL ADDRESS NAME: VISHNU DUTT AND THE REGISTRATION NUMBER ADDRESS: 219,ANARKALI BAZAR OF THE INTERIM RESOLUTION JHANDEWALAN EXTENSION. PROFESSIONAL NEW DELHI-110 055.

E-MAIL: vishnudutt2050@yahoo.com REGN. NO. IBBI/IPA-001/1P-P00102/2017-9. LAST DAY FOR SUBMISSION OF 08-11-2017

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench II, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process agains 'M/s Sandeep Axles Private Limited' on 17-10-2017.

The Creditors of "M/s Sandeep Axles Private Limited", are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before 08-11-2017 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against item no. 8. The claims may be submitted in the specified Forms – B, C, D and E in terms of Regulations ', 8 and 9 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution

Financial Creditors, Workmen or Employees and Authorized representative of workmer and employees respectively as the case may be. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. The

Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 by the Operational Creditors,

operational creditors, including workmen and employee, may submit the proof of claims in person, by post or electronic means

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

(VISHNU DUTT) Place: New Delhi Interim Resolution Professiona

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

(Formerly Known as Rita Holdings Limited) Regd. Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector -14, Rohini, New Delhi-110085 Email id: ritaholdingsltd@gmail.com , Website: www.ritaholdings.in Phone:011-65448440, CIN: L67120DL1981PLC011741

PUBLIC NOTICE

IN CONNECTION WITH PROPOSED CHANGE IN MANAGEMENT AND CONTROL OF RITA FINANCE AND LEASING LIMITED (Formerly Known as Rita Holdings Limited) This Public Notice is being issued pursuant to Reserve Bank of India ("RBI") circular No. DNBS (PD) CC No. 82 / 03.02.02 / 2006-07 dated October 27, 2006 read with directions contained in the approval letter issued by the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, New Delhi office, vide its letter bearing reference number DNBS (ND) CMS-IV/S.NO.657/05.18.101/2017-18, dated October 18, 2017, wherein RBI has granted permission for proposed change in control and management of Rita Finance and Leasing Limited (Formerly Known as Rita Holdings Limited), subject to fulfilment of certain conditions.

Kumar Mittal, both residents of I-19, Sai Apartments, Plot no. 47, Sector-13, Rohini Delhi -110085 ("Preferential Allotment Subscribers"/ "Acquirers"/"New Management"), collectively intend to subscribe, on Preferential Allotment basis, 17,00,000 (Seventeen Lac) fully paid Equity Shares of Rs. 10/- each ("Equity Shares") of the Company for cash at a price of Rs. 15 (Rupees Fifteen) per Equity Share (including a premium of Rs. 05 per Equity Share) of Rita Finance and Leasing Limited (Formerly Known as Rita Holdings Limited) (CIN: L67120DL1981PLC011741). a Non-Banking Financial Company ("NBFC") having RBI Registration number 14.01024, with its registered office situated at 324A, III" Floor, Aggarwal Plaza Sector-14, Rohini, New Delhi- 110085 ("the Company") that will result in change in control and management of the Company.

Mr. Pawan Mittal s/o Shri Kailash Chand Mittal and Mrs. Kiran Mittal w/o Mr. Pawan

On expiry of 30 days from the date of publication of this Notice and on successful completion of the Preferential Allotment, the present directors may retire and Preferential Allotment Subscribers may take over the management and control of the Company, subject, however, to:

 Terms of final observation letter dated June 07, 2017 bearing reference no. CFD/DCR2/OW/P/2017/13068, received from the Securities and Exchange Board of India, with whom the Acquirers, through their appointed Merchant Banker, M/s Turnaround Corporate Advisors Private Limited, had moved an application for making an Open Offer to the eligible shareholders of Rita

Finance and Leasing Limited (Formerly Known as Rita Holdings Limited); and b) Successful completion of the proposed open offer in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 by the Acquirers.

This Public Notice is being published jointly by the Company and the Acquirers. Any person including any regulator, creditor, fiscal authority or stakeholder having

any objection to the proposed change in control and management of the Company in favour of the New Management may write, within 30 days of publication of this notice to the Company at its registered office and also to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision (DNBS), Reserve Bank of India Parliament Street, New Delhi,

Issued by: Rita Finance and Leasing Limited

Formerly Rita Holdings Limited) Preferential Allotment Subscribers mentioned above

Anju Sharma Pawan Kumar Mittal Managing Director DIN: 00749265 DIN: 02591877

Place: New Delhi Dated: October 24, 2017

Kiran Mittal

DIN: 00749457